

भुगतान प्रणाली संकेतक								
भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान एवं निपटान प्रणाली सांख्यिकी								
	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़)			
	वित्तीय वर्ष	2024	2025	2025	वित्तीय वर्ष	2024	2025	2025
	2024-25	अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर	2024-25	अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4	1	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाज़ार अवसरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल संचालित सिस्टम	47.40	3.59	4.95	4.25	296218030	25730864	30270023	30434601
1.1 सरकार प्रतिभूति समाशोधन	17.87	1.69	1.75	1.63	185733719	16664120	18003263	18365111
1.1.1 आउटराइट	10.56	1.04	1.04	0.95	16056018	1626397	1499643	1439939
1.1.2 रेपो	4.72	0.41	0.48	0.46	77286611	6573748	7926471	8365990
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.23	0.23	0.23	92391091	8463975	8577149	8559182
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	1.74	3.11	2.51	100639565	8046345	11417001	11161871
1.3 रुपया डेरिवेटिव @	1.46	0.16	0.09	0.11	9844746	1020399	849759	907620
बी. भुगतान प्रणाली								
i वित्तीय बाज़ार अवसरचना (एफएमआई)								
1 क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस	3024.55	267.92	280.83	296.76	201387682	17070975	19836942	18732702
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	266.69	279.64	295.56	181153129	15418778	18220475	17108666
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.23	1.19	1.20	20234553	1652197	1616467	1624036
ii खुदरा								
2 क्रेडिट अंतरण - खुदरा	2061014.91	185187.17	213074.92	224318.23	79881976	7358283	7543380	7851867
2.1 ईपीएस (फंड ट्रांसफर) @	3.64	0.31	0.26	0.27	190	17	12	12
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	4021.91	2542.90	2745.64	554034	69157	41746	43353
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4668.23	3943.79	4035.88	7139110	629382	596847	641964
2.4 एनएसीएच क्रेडिट \$	16938.86	1463.68	1850.43	1736.26	1670223	157479	149729	165141
2.5 एनईएफटी	96198.05	9183.38	8403.21	8790.97	44461464	4152428	4265310	4273608
2.6 यूपीआई @	1858660.25	165849.66	196334.33	207009.21	26056955	2349821	2489737	2727791
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.64	0.94	1.14	185	18	10	13
3 डेबिट अंतरण और डायरेक्ट डेबिट	21659.95	1871.73	1926.97	1964.66	2208583	189818	222919	223881
3.1 भीम आधार पे @	230.08	24.54	18.90	20.58	6907	773	591	661
3.2 एनएसीएच डेबिट \$	19762.28	1710.21	1786.47	1812.26	2199327	188844	222164	223048
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ) @	1667.59	136.98	121.60	131.82	2349	202	164	172
4 कार्ड भुगतान	63861.15	5759.31	5999.80	6279.14	2605110	248619	253483	256373
4.1 क्रेडिट कार्ड	47740.76	4332.14	4952.41	5182.90	2109197	201789	216707	214230
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	2196.73	2416.15	2609.42	795022	79293	72544	88357
4.1.2 अन्य \$	23169.66	2135.41	2536.26	2573.48	1314175	122496	144163	125873
4.2 डेबिट कार्ड	16120.39	1427.17	1047.39	1096.25	495914	46830	36776	42143
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1060.17	777.56	828.79	332556	32091	22773	29104
4.2.2 अन्य \$	4140.06	367.00	269.83	267.46	163358	14738	14003	13039
5 प्रीपेड भुगतान उपकरण	70254.08	5977.88	8551.51	8939.26	216751	20419	22637	24227
5.1 वालट	52898.40	4425.20	6871.58	7281.56	154066	13074	17183	18515
5.2 कार्ड	17355.68	1552.68	1679.93	1657.70	62686	7345	5454	5712
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	718.88	688.72	649.16	11512	981	1092	1274
5.2.2 अन्य \$	9115.54	833.81	991.22	1008.54	51174	6365	4362	4437
6 कागज-आधारित उपकरण	6095.38	546.98	464.86	452.12	7113350	624057	570467	574554
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	546.98	464.86	452.12	7113350	624057	570467	574554
6.2 अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	2222885.46	199343.07	230018.06	241953.42	92025771	8441196	8612885	8930903
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	2225910.01	199610.99	230298.89	242250.18	293413453	25512171	28449827	27663605
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	2219814.63	199064.01	229834.03	241798.06	286300103	24888114	27879360	27089051
भाग II - भुगतान मोड और चैनल								
	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़)			
	वित्तीय वर्ष	2024	2025	2025	वित्तीय वर्ष	2024	2025	2025
	2024-25	अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर	2024-25	अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4	1	2	3	4
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित)	1756976.91	154876.80	181008.61	190876.05	39206221	3532243	3618114	3928495.79
1.1 इंटर-बैंक \$	110801.96	9126.58	10469.49	10981.41	7207439	657333	633733	687557
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	145750.22	170539.12	179894.64	31998782	2874910	2984381	3240939
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग/इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @	47478.09	4259.90	3755.37	3803.42	131858133	11281098	13654298	13199799
2.1 इंटर-बैंक @	13056.37	1152.19	853.80	872.08	69086996	5801815	7091903	6840494
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	3107.71	2901.57	2931.34	62771136	5479282	6562395	6359305
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी \$	60308.11	5545.04	4395.48	4661.98	3063077	285506	230952	251643
3.1 क्रेडिट कार्ड द्वारा \$	97.25	8.32	6.69	7.12	5084	444	369	404
3.2 डेबिट कार्ड द्वारा \$	59965.70	5515.23	4370.90	4636.34	3046987	284076	229713	250321
3.3 प्री-पेड कार्ड द्वारा \$	245.16	21.49	17.89	18.53	11005	985	870	917
4 पीओएस\$ पर नकद निकासी	3.58	0.29	0.12	0.15	37	3	2	2
4.1 डेबिट कार्ड द्वारा \$	3.33	0.28	0.10	0.13	35	3	1	2
4.2 प्री-पेड कार्ड द्वारा \$	0.25	0.01	0.02	0.02	3	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम से नकद निकासी @	11640.55	1227.30	1034.96	1084.34	296622	31480	26356	29379
5.1 ईपीएस@	11640.55	1227.30	1034.96	1084.34	296622	31480	26356	29379

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)				
	मार्च 2025 तक	2024	2025	2025
		अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्डों की संख्या	11006.97	10878.00	11381.99	11411.69
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1068.90	1133.90	1140.18
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9809.11	10248.09	10271.50
2 पीपीआई की संख्या @	13401.46	15503.38	16180.40	17710.95
2.1 वॉलेट @	8678.44	11439.31	11478.95	12993.66
2.2 कार्ड @	4723.02	4064.07	4701.45	4717.28
3 एटीएम और सीआरएम की संख्या	2.56	2.56	2.49	2.50
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम\$ और सीआरएम#	2.20	2.21	2.12	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.35	0.37	0.37
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	14.51	14.60	14.65
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	95.09	121.24	123.17
6 भारत क्यूआर @	67.18	64.31	60.95	60.73
7 यूपीआई क्यूआर*	6579.30	6168.52	7090.66	7175.25

भाग IV - भुगतान मोड और चैनल (अंतर्राष्ट्रीय)				
	भारत में जारी कार्ड (क्रेडिट, डेबिट और पीपीआई) का उपयोग करके किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का विवरण			
	मात्रा (लाख)		मूल्य (करोड़)	
	2025	2025	2025	2025
	सितंबर	अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
1. कार्ड से भुगतान	136.04	145.70	10212	10097
1.1 क्रेडिट कार्ड	87.55	91.24	7821	7695
1.1.1 पीओएस आधारित	36.09	38.35	2547	2671
1.1.2 ऑनलाइन	51.46	52.89	5274	5024
1.2 डेबिट कार्ड	48.48	54.46	2391	2403
1.2.1 पीओएस आधारित	23.55	27.89	799	918
1.2.2 ऑनलाइन	24.93	26.57	1592	1485
2. प्रीपेड भुगतान उपकरण	35.26	36.27	1463	1390
2.1 पीओएस आधारित	30.33	31.28	1153	1122
2.2 ऑनलाइन	4.93	4.99	309	268
3. एटीएम से नकद निकासी	5.32	6.00	1299	1399
3.1 क्रेडिट कार्ड द्वारा	0.42	0.47	78	88
3.2 डेबिट कार्ड द्वारा	3.29	3.84	631	725
3.3 पीपीआई द्वारा	1.61	1.69	591	585
कुल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान	176.62	187.97	12974	12886

भाग V - घरेलू भुगतान धोखाधड़ी				
	मात्रा (लाख)	मूल्य (करोड़)	प्रत्येक एक्स भुगतान लेनदेन में से एक धोखाधड़ीपूर्ण	एफटीएस (धोखाधड़ी / भुगतान मूल्य * 10000)
सितंबर 2022	1.71	249	58177.41	0.127 bps
अक्टूबर 2022	1.79	220	59533.35	0.127 bps
नवंबर 2022	2.06	257	50620.69	0.143 bps
दिसंबर 2022	1.54	204	72426.75	0.103 bps
जनवरी 2023	1.57	195	71681.44	0.106 bps
फरवरी 2023	2.29	317	47018.00	0.177 bps
मार्च 2023	2.25	333	53907.48	0.142 bps
अप्रैल 2023	1.75	273	68927.36	0.152 bps
मई 2023	2.03	285	63051.71	0.147 bps
जून 2023	1.74	265	72554.96	0.128 bps
जुलाई 2023	2.24	286	59898.87	0.146 bps
अगस्त 2023	2.40	320	58391.71	0.157 bps
सितंबर 2023	2.52	366	55057.76	0.174 bps
अक्टूबर 2023	2.23	335	66950.05	0.164 bps
नवंबर 2023	2.57	428	57618.81	0.209 bps
दिसंबर 2023	2.92	432	53327.09	0.187 bps
जनवरी 2024	2.69	435	56335.82	0.207 bps
फरवरी 2024	2.57	507	61162.60	0.231 bps
मार्च 2024	2.57	471	67394.38	0.177 bps
अप्रैल 2024	2.38	414	70681.81	0.191 bps
मई 2024	2.81	545	62637.44	0.240 bps
जून 2024	2.36	480	73786.50	0.206 bps
जुलाई 2024	2.54	462	71157.30	0.194 bps
अगस्त 2024	2.34	401	79284.04	0.170 bps
सितंबर 2024	2.19	401	84751.16	0.158 bps
अक्टूबर 2024	2.35	411	87719.87	0.159 bps
नवंबर 2024	2.03	345	93298.98	0.155 bps

दिसंबर 2024	2.59	425	78851.58	0.155 bps
जनवरी 2025	2.30	361	90183.15	0.140 bps
फरवरी 2025	1.83	288	107458.55	0.121 bps
मार्च 2025	1.84	291	121303.33	0.094 bps
अप्रैल 2025	1.80	307	119659.70	0.121 bps
मई 2025	1.87	329	120406.36	0.129 bps
जून 2025	1.87	303	118068.41	0.111 bps
जुलाई 2025	2.87	440	81444.84	0.160 bps
अगस्त 2025	2.40	411	100735.94	0.166 bps
सितंबर 2025	3.03	431	77798.50	0.150 bps
अक्टूबर 2025	2.81	407	88209.52	0.146 bps

@: नवंबर 2019 से शामिल किया गया डेटा।
 #: दिसंबर 2021 से सहकारी बैंकों, LABs और RRBs द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा को शामिल किया गया है।
 \$: नवंबर 2019 से अलग से शामिल किया गया हैं - पहले अन्य वस्तुओं का हिस्सा होता था।
 *: सितंबर 2020 से शामिल किया गया हैं ; केवल स्टेटिक UPI QR कोड शामिल है

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।
 2. ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) को 31 जनवरी 2020 से एनएसीएच में विलय कर दिया गया है।
 3. कार्ड भुगतान (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) और प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद के डेटा की तुलना पहले के महीनों/अवधि से नहीं की जाती है, क्योंकि डेटा परिभाषाओं में संशोधन के साथ-साथ अधिक विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
 4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया जाता है। नया प्रारूप ई-कॉमर्स लेनदेन को कैप्चर करता है; फास्ट टाग, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड अंतरण आदि का उपयोग करके लेनदेन। इसके अलावा, विफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, समाप्त कार्ड/वॉलेट को बहिष्कृत किया गया है।
 5. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए घरेलू भुगतान धोखाधड़ी आंकड़ों पर डेटा, सीपीएफआईआर (केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री) में गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता और गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता।
 6. डेटा में धोखाधड़ी करने के प्रयास शामिल नहीं हैं।